

## आर-टेक ग्रुप द्वारा जयपुर के कुष्ठ आश्रमों में वस्त्र वितरण किया गया.

**जयपुर: 2 अक्टूबर 2018** : राजस्थान के सबसे विश्वसनीय रियल एस्टेट डेवलपर, आर-टेक ग्रुप ने जयपुर के इंद्रा कुष्ठ आश्रम , सार्थक मानव आश्रम , महात्मा गाँधी आश्रम में कुष्ठ रोगियों को रेडी मेड वस्त्रों का वितरण किया .

इस अवसर पर बोलते हुए, आर-टेक ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री राजेश यादव ने कहा कि हमारे CSR प्रोग्राम के अंतर्गत हमने जयपुर , अलवर और आसपास के जिलों के कई प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और आश्रमों में रेडी मेड वस्त्रों का वितरण किया है और आगे भी इसी तरह से वितरण करने का प्रावधान है.



आर-टेक समूह समाज में वंचित लोगों के कल्याण के लिए कई सामाजिक गतिविधिया करता रहा है। हमारे स्वयंसेवक समाज में वंचित वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने की दिशा में अपना योगदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, हमने अपने क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर कई सामाजिक कार्य किए हैं.

हमने शिक्षा से वंचित बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए अलवर में एक स्कूल के निर्माण में सहयोग किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब वर्ग को बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन जीने में मदद करना है। हमारी गतिविधियों में कंबल, शिक्षा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण और कई अन्य गतिविधियां शामिल हैं।

आर-टेक ग्रुप: कंपनी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आर-टेक ग्रुप ने 2007 में रियल एस्टेट के क्षेत्र में शुरुवात की थी और पिछले 11 वर्षों में हमने 16 कर्पोरेट एवं रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट का निर्माण करके लगभग 17,000 संतुष्ट ग्राहकों को यूनिट्स हैंड ओवर कर चुके हैं और आर-टेक ग्रुप राजस्थान के प्रमुख शहरों, जयपुर, बीकानेर, अलवर, नीमराना एवं भिवाड़ी में अपने प्रोजेक्टों का निर्माण कर रहा है। आर-टेक ग्रुप शीघ्र ही राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा जोधपुर शहरों में परियोजना ले कर आने की योजना बनायीं हैं।

For further information Please Contact : Kalpana gautam- 9560299724, Email: kalpana.gautam@rtechgroup.co.in

आर-टेक ग्रुप